

HCL TECHNOLOGIES LTD.

Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369

Technology Hub, Special Economic Zone

Plot No : 3A, Sector 126, NOIDA 201 304, UP, India.

T +91 120 6125000 F +91 120 4683030

Registered Office: 806 Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019, India.

www.hcltech.com

www.hcl.com

July 25, 2022

The General Manager
BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza
5th Floor, Plot No. C-1, Block-G
Bandra-Kurla Complex, Bandra(E)
Mumbai-400 051

BSE Scrip Code: 532281

NSE Scrip Code: HCLTECH

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published in English and Hindi newspapers, namely MINT (All editions) and Hindustan Hindi (Delhi Edition), respectively on July 23, 2022, in compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations.

The above information is also available on the website of the Company www.hcltech.com.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HCL Technologies Limited**



Manish Anand
Company Secretary

Encl.: a/a

Tata chief warns of UK steel plant closure

Tata plans to close furnaces at Port Talbot under its decarbonization plans

Agencies
feedback@livemint.com
LONDON

Tata Group chairman Natarajan Chandrasekaran has warned that the company could be forced to shut down Tata Steel's plants in the UK without a British government subsidy deal worth around £1.5 billion.

Tata Steel owns the UK's largest steelworks at Port Talbot in South Wales and employs around 8,000 people across all its operations in the country.

The Tata Group chief told *The Financial Times* that the Mumbai-headquartered company had been in talks with the UK government over its decarbonisation plans and a deal would have to be struck by next year to save the steelworks.

"A transition to a greener steel plant is the intention that we have... However, this is only possible with financial help from the government," Chandrasekaran said.

"We have been in discussions over the last two years and we should come to an agreement within 12 months. Without this, we will have to look at closures of sites," he said.

Under the decarbonization plans, Tata plans to close two blast furnaces at Port Talbot, stop primary steelmaking and instead build two electric arc furnaces, according to *The Financial Times*, which referenced people who are familiar with the details.

These furnaces recycle scrap steel and are less carbon intensive than blast furnaces. Building the electric arc furnaces and decommissioning the blast furnaces would cost around £3 billion, with Tata seeking £1.5 billion from the government, according to the report.

Workers' unions have expressed deep worries over the threat of plant closures and have called on the government to intervene to help what is seen as a vital



Tata Group chairman Natarajan Chandrasekaran said that the company's steel plants could be forced to shut down without a British government subsidy deal.

industry.

"Steel plays a critical role in all areas of the UK economy and Tata is a valued steel producer and significant employer in the UK," according to a UK government spokesperson.

The Indian steel giant is one of Europe's leading steel producers, with steelmaking

steel by 2050 at the latest and to have reduced 30% of carbon dioxide emissions by 2030.

The vast majority of that work will need to happen in South Wales, where the company's largest operational site is located at Port Talbot.

At the time, Tata Steel had said it is developing detailed plans for this transition to future steelmaking based on low carbon dioxide technologies and is close to knowing which will best help achieve its ambitions.

Tata Steel did not immediately respond to an *AFP* request for comment.

A slide in steel demand during the covid-19 pandemic had already fuelled concerns about the Port Talbot plant's long-term future after losses across two years of the health crisis came in at around a billion pounds.

Last year, Tata Steel had already announced 1,000 job losses in the UK.

Reliance Jio reports net profit of ₹4,335 crore in first quarter of FY23

Gulveen Aulakh
gulveen.aulakh@livemint.com

Reliance Jio Infocomm Ltd, India's largest telecom services provider, said fiscal first-quarter profit rose 24%, even as it highlighted the readiness of its 5G indigenous stack that will be launched in nine cities, including Mumbai and Delhi, soon after the auctions.

Net profit rose to ₹4,335 crore for the quarter ended 30 June from ₹3,501 crore in the year earlier. Revenue rose 22% to ₹21,873 crore in the June quarter from ₹17,994 crore, the telecom unit of Reliance Industries Ltd (RIL) told exchanges on Friday.

The average revenue per user (Arpu), a metric of profitability for telecom service providers, rose to ₹175.7 per month during the quarter, 27.3% more than a year earlier and 4.7% more than the preceding March quarter, "led by higher customer engagement". Arpu for the preceding quarter was ₹167.6 per month, while it was



Jio has more than 80% market share of new customer additions in the wireline segment.

₹138 per month in the year-earlier June quarter.

Profit missed analysts' estimates. However, Arpu was higher than market expectations, driven by the residual impact of tariff hike and contribution from FTTH, the company said. Smaller rivals Bharti Airtel and Vodafone Idea are yet to release their quarterly financial numbers.

"Customer engagement on our digital services platform remains high. Jio is working

towards expanding data availability for all Indians, and I am pleased to see the positive trends in mobility and FTTH subscriber additions," said Mukesh Ambani, chairman and managing director of RIL.

Jio has more than 80% market share of new customer additions in the wireline segment, with 7 million connected homes and premises, according to data published by the Telecom Regulatory Authority of India.

The indigenous 5G stack will be deployed within the Jio network and will be taken to markets outside India, said Kiran Thomas, director of Jio Platforms. To begin with, it will be launched in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Chennai, Lucknow, Jamnagar, Ahmedabad, and Hyderabad.

"It's a total 360 degree 5G solution that we have been able to build in Jio Platforms, and obviously, this will be deployed at scale within the Jio network, to begin with, and on the back of that success, it will create a new revenue line, as we are able to take this to other markets event outside India," he said. The department of telecommunications has seen the use cases that have been tried on its network, and the government has given the go-ahead for deployment at scale, Thomas said.

Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation rose 28% to ₹11,046 crore for the quarter ended June, driven by strong revenue growth and margin improvement.

Centre significantly lowers LPG subsidy bill

Rituraj Baruah
rituraj.baruah@livemint.com
NEW DELHI

The government's cost of subsidizing LPG cylinders has fallen drastically from ₹11,896 crore in FY21 to ₹242 crore in FY22, according to data provided in the Lok Sabha by the Union petroleum ministry.

"The prices of petroleum products in the country are linked to the price of respective products in the international market. However, the government continues to modulate the effective price to consum-

ers for domestic LPG," Rameswar Teli, Union minister of state for petroleum and natural gas said in a written reply on Thursday.

The Centre's expenditure in terms of LPG subsidy was ₹23,464 crore in FY18, ₹37,209 crore in FY19 and ₹24,172 crore in FY20, he said.

The drastic fall in FY 22 reflects the reduction in the number of beneficiaries and the rising retail price of gas cylinders.

Since June 2020, when the government said subsidized gas cylinders would only be available to Pradhan Mantri

Ujjwala Yojana (PMUY) beneficiaries, the number of beneficiaries has come down to 93 million.

The price of domestic cooking cylinders has also increased steadily. Earlier this

month, oil marketing companies, raised the price of domestic cylinders by ₹50 across four metros. Cylinders in Delhi now

cost ₹1,053 each.

Data provided by the minister showed that LPG prices had declined from ₹706.50 per cylinder in April 2019 to ₹581.5 per cylinder on 1 May 2020. However, since then, the cost of cylinders has only moved up, barring one instance of a ₹10-cut in April 2021.

For FY23, Teli said, the government has started a targeted subsidy of ₹200 per cylinder for PMUY beneficiaries for up to 12 refills a year. The subsidy on the cylinders is credited to the bank account of the beneficiary after they buy it at market price.

PROBLEM IN THE UK

STEEL plants will be shut without a British govt subsidy deal worth around £1.5 billion

TATA aims to manufacture net-zero steel carbon emission steel by 2050

TATA Steel owns the UK's largest steelworks at Port Talbot & employs at least 8,000 people

units in the Netherlands and the UK, and manufacturing plants across Europe.

The company's tube products are used across a broad range of industries, including construction, machinery fabrication, energy, and automotive.

Last month, Tata Steel said it has an ambition to produce net-zero carbon emis-

sions by 2050 at the latest and to have reduced 30% of carbon dioxide emissions by 2030.

Last year, Tata Steel had already announced 1,000 job losses in the UK.

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC)

"Request for Proposal" (RFP) for

Appointment of service provider and consultant for Property survey and Assessment of property and allied taxes, and relevant services for entire properties (Lands & Buildings) within the limits of Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Pimpri Chinchwad - second call

E-Tender Notice No. 1/2022-23

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation invites online RFP for **"Appointment of service provider and consultant for Property survey and Assessment of property and allied taxes, and relevant services for entire properties (Lands & Buildings) within the limits of Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Pimpri Chinchwad"**, under Quality cum Cost Based Selection (QCBS) Method. The detailed e-tender document for the above is available at <https://mahatenders.gov.in> The duration of work is 2 year of implementation phase and 1 years of Operations & Maintenance phase extendable up to 2 or more years, solely based on the performance by the bidder

In that context, PCMC invites interested entities having experience as envisaged in the RFP document, to submit their proposal. Interested entities can download the RFP document from the website <https://mahatenders.gov.in> Interested entities shall make online payment of Rs. 49,819/- (Rupees - Forty Nine Thousand Eight Hundred and Nineteen only) towards the cost of RFP document and bid security/ earnest money deposit of Rs. 48,00,000/- at the time of submission of its proposal through the e- tendering system.

The last date of submission of bid will be **12/08/2022**

Sd/-
(Rajesh Patil)
Commissioner
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

Advt.No. 146

HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369
Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi -110019
Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida - 201304, UP, India
Telephone: +91 11 26436336
Website: www.hcltech.com; E-mail ID: investors@hcl.com

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the members of HCL Technologies Limited (the "Company") will be held on Tuesday, August 16, 2022 at 11.00 A.M. (IST) through VC / OAVM to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM.

Pursuant to the General Circular no. 2/2022 dated May 5, 2022 and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), companies are allowed to convene their AGMs through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with the MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder, the AGM of the members of the Company will be held through VC/OAVM.

The MCA Circulars read with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ("SEBI Circular"), has dispensed with the requirement of sending the physical copies of the AGM Notice and Annual Report to the members. Accordingly, the notice of the AGM setting out the businesses to be transacted at the meeting together with the Annual Report (2021-22) of the Company have been sent electronically on Friday, July 22, 2022 to all the members whose e-mail addresses were registered with the Company/ Depository Participant(s).

Members may note that the Notice of the AGM and the Annual Report (2021-22) are also available on the website of the Company at www.hcltech.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively as well as on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com, the agency appointed for facilitating e-voting (including remote e-voting) for the AGM.

E-voting (including remote e-voting)

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer e-voting facility to its members to enable them to cast their votes electronically on the resolutions set forth in the Notice of the AGM. The members holding shares either in physical form or in electronic mode as on **Tuesday, August 9, 2022 ("Cut-off date")** and who are otherwise not barred to cast their vote, are entitled to cast their vote electronically.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the completion of dispatch of the Notice of the AGM and holds shares on the Cut-off date may obtain a login ID and password to cast his/her vote and for attending the AGM by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for e-voting (including remote e-voting) is given in the Notice of the AGM.

The Company has appointed M/s. Nityanand Singh & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting (including remote e-voting) process in a fair and transparent manner.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Date and time of commencement of remote e-voting
09:00 A.M. (IST) on Friday, August 12, 2022

Date and time of end of remote e-voting
05:00 P.M. (IST) on Monday, August 15, 2022

The remote e-voting module will be disabled by NSDL and no remote e-voting will be allowed thereafter. Once the vote on the resolution(s) is cast by the member during above mentioned remote e-voting period, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again, however, he / she may attend the AGM through VC/OAVM. Further, the members, who will be present in the AGM through VC/OAVM and who have not cast their votes during the remote e-voting period and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM.

In case of any queries relating to e-voting (including remote e-voting) or for joining the AGM through VC/OAVM, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com. You can also contact NSDL at evoting@nsdl.co.in or on toll free no.: 1800-1020-990 or 1800-224-430 or designated telephone nos. +91 22 24994545/ 559. In case of any grievance, please write to Ms. Pallavi Mhatre, Manager at pallavid@nsdl.co.in or Ms. Soni Singh, Asst. Manager at sonis@nsdl.co.in

For HCL Technologies Limited
Manish Anand
Company Secretary

Date: July 22, 2022
Place: Noida (U.P.)

AI AIRPORT SERVICES LTD.

AIASL invites sealed quotations against Tender No. 1268 dated **19.7.2022** due on **09.08.2022** from IRDA approved Insurance companies for Group Mediclaim Services for Permanent Employee of AIASL. The tender documents can be downloaded from our website: www.aiasl.in.

**OFFICE OF THE DEAN
COLLEGE OF AGRICULTURE
JABALPUR (M.P.)**

TENDER NOTICE

Separate tenders are invited from the Manufacturers/Authorized Dealers for items of HDPE Bottles and Electric Boiler individually under Microbes Research & Production Centre. The last date for submission of tender is **04.08.2022**. For complete details please visit website- www.jnkvv.nic.in.
Dean CoA
JNKVV, Jabalpur

IPRO/Soil Sci/MRPC/2022/40

RajCOMP Info Services Limited (RISL)

C-Block, 1st Floor, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.

RISL invites bids from the eligible bidders for the following:

NIB No./Date/Unique Bid No.	Particulars	Estimated Cost/ Bid Security	Start of Sale /Last Date
2976/21.07.2022 (RIS2223SL OB00040)	RFP for Digitization & Microfilming of Records of Govt. Departments through Rate Contract for two years under two Packages (Two Separate Package Bids) Note: Bidder may quote for one or both packages, but for all items in either packages. Bidder needs to submit separate bids for each package.	Package-I (Scanning & Digitization) Estimated Cost: Rs. 10 Cr. Bid Security: Rs. 20 Lakh Package-II (Microfilming) Estimated Cost: Rs. 6 Cr. Bid Security: Rs. 12 Lakh	21.07.2022 /01.09.2022

Details can be seen on the websites <https://spmp.rajjasthan.gov.in>, <https://risl.rajjasthan.gov.in>, <https://doitc.rajjasthan.gov.in>. Bids are to be submitted through <https://eproc.rajjasthan.gov.in>
Raj.Samwadd/C22/5413

System Analyst (Joint Director)

We have a single-word advice for to-be business leaders.

Subscribe.

Business news that supports new-age leadership

Scan the QR code or visit livemint.com to subscribe

mint
India's No.1 Business News Site

FOR LEADERS OF THE NEW ORDER

Start the day right.

Mint Top of the Morning Newsletter

- The top business, economic and political news of the day
- Delivered to your inbox every morning



To subscribe, scan this code or login:
livemint.com/newsletters

mint

फिनटेक कंपनियों को रिजर्व बैंक की चेतावनी, बिना लाइसेंस काम पर कार्रवाई होगी डिजिटल कर्जदाता तय दायरे में रहकर ही काम करें: आरबीआई

सख्ती

नई दिल्ली, एजेंसी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप के जरिए कर्ज देने वाली फिनटेक कंपनियों को रिजर्व बैंक ने सख्त चेतावनी दी है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि डिजिटल कर्जदाता अपने दायरे में रहकर ही काम करें। उन्हें सिर्फ उन्हीं कार्यों से जुड़े रहना चाहिए, जिसका उन्हें लाइसेंस दिया गया है।

एक कार्यक्रम में दास ने कहा कि ऐसी कंपनियों के कामकाज पर आरबीआई की नज़ी नजर है। फर्मों को अपने लाइसेंस के तहत ही कामकाज करना चाहिए। अगर वे इससे अतिरिक्त कोई काम करना चाहते हैं, तो पहले हमसे इजाजत लेनी होगी। अगर कोई प्लेटफॉर्म बिना लाइसेंस या इजाजत के काम करते पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने इस बात पर चिंता जताई कि अभी बिना लाइसेंस के ही कर्ज बांटे जा रहे हैं। इन सबसे निपटने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

लगातार छठे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ सेंसेक्स

मुंबई,एजेंसी। घरेलू शेयर बाजार में लगातार छठेदिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 390 अंक से अधिक चढ़कर 56,000 के पार पहुंच गया। विदेशी निवेशकों की लिवाली और वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच बैंक और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक बृहस्पतिवार को शुद्ध लिवाल रहे। उन्होंने 1,799.32 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदें। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 390.28 अंक यानी 0.70 प्रतिशत बढ़कर 56,072.23 अंक

पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 504.1 अंक तक चढ़ गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निप्टी भी 114.20 अंक यानी 0.69 प्रतिशत की मजबूती के साथ 16,719.45 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन कंपनी, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे। वहीं, दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में इन्फोसिस, एनटीपीसी, पावरग्रिड, विप्रो और इंडसइंड बैंक शामिल हैं।

चार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें ग्राहकों के अपने बैंक खातों से पैसा निकालने की सीमा लगाना शामिल है। आरबीआई के अनुसार, साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बराहचर के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश के मुताबिक, साईबाबा जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ता 20,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते हैं। जबकि सूरी फ्रेड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है।

बीमा कंपनियां पैनल में मर्जी से अस्पताल शामिल करेंगी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय बीमा विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को मर्जी से अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की अनुमति दे दी है। इरडा ने कैशलेस सुविधा के लिए मानदंडों में ढील देने के उद्देश्य से यह निर्णय उठाया है। इस फैसले से अब ज्यादा-से-ज्यादा अस्पतालों में मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इरडा के सर्कुलर के अनुसार बीमा कंपनियों को बोर्ड स्तर पर एक नीति बनानी होगी। उसके बाद वे किसी भी अस्पताल को पैनल में ला सकती हैं। इरडा ने कहा कि पैनल में उन्हीं अस्पतालों को शामिल किया जाएगा, जो बीमा कंपनियों के बोर्ड द्वारा तैयार नियमों का पालन करेंगे। बीमा कंपनियों का कहना है कि बीमा कारोबार लगातार सुधार कर रही है। इस सर्कुलर से अब बीमा की पहुंच ज्यादातर इलाकों में और ज्यादा अस्पतालों में हो सकेगी।

अब तक उन्हीं अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की इजाजत थी, जिनके पास एनबीएच का प्रमाणपत्र है।या फिर अस्पताल का रजिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल्स इन द नेटवर्क ऑफ इश्योरर्स (रोहिनी) में पंजीकरण होना जरूरी था।

इरडा ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बीमा कंपनियों को किसी भी

बाजार	30 ^s	
शेयर बाजार		
सेंसेक्स	निफ्टी	
56072	16719	+390 +114
टॉप गेनर	टॉप गेनर	
कंपनी	बंद	बदलाव%
अल्ट्रा सीमेंट	6454.50	5.31
एचडीएफसी	2296.55	2.37
टॉप लूजर	टॉप लूजर	
इंफोसिस	1506.30	−1.73
एनटीपीसी	148.90	−1.19
इंफोसिस	1506.00	−1.75

कमोडिटी			
	भाव	बदलाव	
सोना	50341	+594	
चांदी	55164	+998	
	₹	\$	
	करंसी	डॉलर/रुपया	
	79.90	-0.05	

घरेलू हवाई सफर करने वाले यात्री घटे

नई दिल्ली। देश में जून के महीने में करीब 1.05 करोड़ घरेलू यात्रियों ने हवाई सफर किया जो एक महीने पहले की तुलना में करीब 12.5 प्रतिशत कम है। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि मई में करीब 1.2 करोड़ घरेलू यात्रियों ने हवाई सफर किया था। इसके साथ ही जनवरी-जून 2022 के दौरान कुल 5.72 करोड़ यात्रियों ने घरेलू उड़ानों से हवाई सफर किया।

एयू बैंक ने इस तिमाही में दमदार प्रदर्शन किया

नई दिल्ली। एयू बैंक के लिए वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही पिछले 5 वर्षों में व्यवसाय की गति और संग्रह के मामले में सर्वश्रेष्ठ में से एक रही। बैंक ने समग्र प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उसका कर पश्चात लाभ 32% सालाना बढ़ा है वहीं जमा में 48% सालाना की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के ऊपर की ओर बढ़ने के बीच जीएनपीए में सुधार हुआ है।

रिलायंस का शुद्ध लाभ 43.6 प्रतिशत बढ़ा



नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने समाप्त पहली तिमाही में समेकित रूप से 17,955 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्शाया है जो पिछले साल इसी तिमाही की तुलना में 43.6 प्रतिशत ऊंचा है। रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा कि कच्चे तेल के बाजार में उत्पन्न चुनौतियों और ऊर्जा तथा भाई का खर्च बढ़ने का बावजूद तेल कारोबार में कंपनी ने अब तक का सबसे अच्छा तिमाही प्रदर्शन दर्ज किया।

आकाश की उड़ान सात अगस्त से शुरू होगी

नई दिल्ली। नई विमानन सेवा आकाश एयर की वाणिज्यिक उड़ानें सात अगस्त से मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर शुरू होगी। पहली उड़ान बोइंग 737 मैक्स विमान भरेगा। कंपनी ने बयान में कहा कि सात अगस्त से मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर 28 साप्ताहिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो रहा है जिनके लिए टिकट की बिक्री शुरू कर दी गई है।

डेल ने पेश किए आधुनिक स्टोरेज समाधान

नई दिल्ली। डेल टेक्नोलॉजीज ने अपने पोर्टफोलियो में विस्तार करते हुए अपने सॉफ्टवेयर आधारित स्टोरेज सॉल्यूशंस लॉन्च किए, जिससे कि बड़ी हुई इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और मल्टी-क्लाउड के लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा सके। यह कदम कारोबार को इस डिजिटल युग में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ सुरक्षित एवं लचीला माहौल प्रदान करेगा।

हिन्दुस्तान भरोसा नए हिन्दुस्तान का

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

अपना देश

आजम खां की जमानत से जुड़े आदेश निरस्त

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट सपा विधायक आजम खां पर लगाई गई जमानत की शर्तों से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के एक हिस्से को शुक्रवार को दरकिनार कर दिया। आदेश में रामपुर के जिलाधिकारी को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी जमीन को कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए थे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस प्रवृत्ति को लेकर परेशान है, जहां हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले का संदर्भ दिया, जो जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने से संबंधित नहीं है। जरिस्टस एसएम खानविलकर की पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा जिलाधिकारी को जमीन को कब्जे में लेने का निर्देश देने वाली जमानत की शर्त को निरस्त करते हुए खां की जमानत से संबंधित अन्य शर्तों को बरकरार रखा।

खां जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। पीठ ने कहा, यह एक और मामला है, जहां हाईकोर्ट ने उन मामलों का संदर्भ दिया, जो संबंधित आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध से जुड़ी जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार से संबंधित नहीं हैं। पीठ ने कहा कि राज्य की ओर से

सात और मामलों में आरोप तय

रामपुर। यतीमखाना और डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े सात अन्य मामलों में शुक्रवार को सपा के शहर विधायक आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां और पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत कई आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। इन सभी पर बस्ती खाली कराने के दौरान लूटपाट, डकैती और मारपीट के आरोप हैं। अब इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी। सपा शासन में यतीमखाना बस्ती और डूंगरपुर बस्ती को खाली कराया गया था। इस दौरान मारपीट, लूटपाट और डकैती के आरोप लगाए गए थे। इन सभी मामलों में 2019 में अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे।

पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने अदालत से अतिरिक्त शर्तें लगाने का आग्रह किया है कि खान को जमानत अवधि के दौरान रामपुर जिले में प्रवेश करने से परहेज करने का निर्देश दिया जाए।

एसआईटी के सदस्य को ट्रैप करने की कोशिश



- पाकिस्तान के एक नंबर से एसआईटी को आया फोन
- मोबाइल नंबर आईएसआई से जुड़ा, नंबर हुआ डिकोड

गए संदिग्ध के तार पाकिस्तान के फैजान से जुड़े रहे हैं। उसके कब्जे से बरामद मोबाइल में पाकिस्तान के फैजान समेत कई संदिग्ध नंबर मिले हैं। उसकी गिरफ्तारी होने से आतंकी संगठनों के संदिग्धों में खलबली मची हुई है।

यही वजह है कि आतंकी संगठन से जुड़े सदस्य दूर से ही तरह-तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। जांच में जुटी एसआईटी को फंसाने के लिए फोन कर हनी ट्रैप करने की कोशिश इसी कड़ी का हिस्सा है।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

कारपोरेट पहचान संख्या : L74140DL1991PLC046369
पंजीकृत कार्यालय : 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
कारपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर-126, नोएडा- 201304, उ.प्र., भारत
टेलीफोन : +91 11 26436336
वेबसाइट : www.hcltech.com; ई-मेल आईडी: investors@hcl.com

विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") एवं अन्य दृश्य-श्रव्य ("ओएवीएम") माध्यमों के द्वारा आयोजित होने वाली 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर "वीसी" / "ओवीएम" के द्वारा आयोजित की जाएगी ताकि बैठक को आयोजित करने के लिए भेजी जा रही सूचना में निर्धारित कामकाज को पूरा किया जा सके।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं. 2 / 2022 दिनांक 6 मई, 2022 एवं अन्य परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") के साथ में पठित, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। एमसीए परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के संबंधित प्रावधानों और इसके अधीन दिए गए नियमों के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की एजीएम का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CM/D2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 ("सेबी परिपत्र") और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्यों को एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की मौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (2021-22) के साथ बैठक में किए जाने वाले व्यवसायों को निर्धारित करने वाली एजीएम की सूचना शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिर्पॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत थे।

सदस्य ध्यान दें कि एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट (2021-22) कम्पनी की वेबसाइट www.hcltech.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट www.nseindia.com, साथ ही साथ नेशनल सिक्युरिटीज डिर्पॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट, ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित) कराने वाली एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित)

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों और कम्पनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 20, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में देने के लिए अपने सभी सदस्यों को ई-मतदान सुविधा प्रदान कर रही है। वे सदस्य जो मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 ("कट ऑफ तिथि") को मौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखते हैं और जिन्हें अपना मतदान देने से वंचित नहीं किया गया हो, वे सभी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत देने के लिए पात्र हैं।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस प्रेषण होने के बाद कम्पनी का शेयर प्राप्त करते हैं या कम्पनी का सदस्य बनते हैं और कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर एक आग्रह भेजकर एजीएम में शामिल होने के लिए और अपना मतदान देने के लिए लॉग-इन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित) हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है। कम्पनी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित) प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में मेसर्स नित्यानंद सिंह एण्ड कम्पनी, कम्पनी सचिव को नियुक्ति किया है।

ई-मतदान सुविधा निम्नांकित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी :

दूरस्थ ई-मतदान शुरू होने की तिथि एवं समय
शुक्रवार, अगस्त 12, 2022 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.सं.)

दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय
सोमवार, अगस्त 15, 2022 को सायं. 05:00 बजे (भा.मा.सं.)

इसके बाद दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली एनएसडीएल द्वारा नियंत्रण कर दी जाएगी और दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त वर्णित दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने पर सदस्य को बाद में उसे बदलने या दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मतदान नहीं खोले हैं और उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया हो, वे एजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से अपना मतदान देने के पात्र होंगे।

ई-मतदान प्रक्रिया (दूरस्थ ई-मतदान सम्मिलित) से संबंधित किसी भी पूछताछ / शिकायत हेतु या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध सदस्यों हेतु प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों ("एफएक्यू") और सदस्यों हेतु ई-मतदान यूजर मैनुअल देखें। आप एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें अथवा नि-शुल्क नं. 1800-1020-990 या 1800-224-430 पर कॉल करें। किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक को pallavid@nsdl.co.in पर या सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, को sonis@nsdl.co.in पर संपर्क करें।

कृते एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
दिनांक : जुलाई 22, 2022
स्थान : नोएडा (यूपी.)

मनीष आनंद
कम्पनी सचिव